



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2751]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937

No. 2751]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3466(अ).—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 29क की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पंजीकृत की गई निम्नलिखित हाउसिंग वित्त कंपनियों, जिनकी अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार टीयर-I पूंजी दस करोड़ रुपए या इससे अधिक है, को सरफासी अधिनियम के कथित उप-खंड के प्रयोजन हेतु 'वित्तीय संस्था' के रूप में निर्दिष्ट करती है:—

क्रम सं.	हाउसिंग कंपनी का नाम
1	आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
2	आदित्य विरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
3	एकमे स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
4	आपट्स वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड
5	एसपायर होम फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
6	एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
7	कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
8	डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
9	एडलवैस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

10	इक्यूटास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
11	हैबिटैट माइक्रो व्यूल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
12	एचबीएन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
13	होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	इंडिया होम लोन्स लिमिटेड
15	इंडिया शैल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
16	मैगमा हाउसिंग फाइनेंस
17	महिन्द्रा रुरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
18	ममता हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
19	मण्णापुरम होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
20	मास रुरल हाउसिंग एंड मोरगेज फाइनेंस लिमिटेड
21	मेंटर इंडिया लिमिटेड
22	माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
23	मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड
24	मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
25	न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
26	नार्थ ईस्ट रीजन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
27	औरेंज सिटी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
28	पनथोईबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
29	रास हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड
30	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड
31	सरल होम फाइनेंस लिमिटेड
32	श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
33	शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
34	एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
35	स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
36	स्वर्ण प्रगति हाउसिंग माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
37	टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
38	यूएसबी हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
39	वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
40	विवा होम फाइनेंस लिमिटेड
41	सेवा गृह रिन लिमिटेड

[फा. सं. 6/1/2015-रिकवरी]

मोहम्मद मुस्तफा, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2015

S.O. 3466 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of Section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (SARFAESI Act), the Central Government hereby specifies the following housing finance companies registered under Sub-section (5) of Section 29 A of National Housing Bank Act, 1987 and with Tier I capital of Rupees ten crores and above as per their latest audited balance sheet to be treated as “financial institution” for the purpose of the said sub-clause of SARFAESI Act.

Sl. No.	Name of the Housing Company
1.	AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED
2.	ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED
3.	AKME STAR HOUSING FINANCE LIMITED
4.	APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA LIMITED
5.	ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LIMITED
6.	AU HOUSING FINANCE LIMITED
7.	CAPITAL FIRST HOME FINANCE PRIVATE LIMITED
8.	DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
9.	EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED
10.	EQUITAS HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
11.	HABITAT MICRO BUILD INDIA HOUSING FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
12.	HBN HOUSING FINANCE LIMITED
13.	HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED
14.	INDIA HOME LOANS LIMITED
15.	INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LIMITED
16.	MAGMA HOUSING FINANCE
17.	MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LIMITED
18.	MAMTA HOUSING FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
19.	MANAPPURAM HOME FINANCE PRIVATE LIMITED
20.	MAS RURAL HOUSING & MORTGAGE FINANCE LIMITED
21.	MENTOR INDIA LIMITED
22.	MICRO HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED
23.	MUTHOOT HOMEFIN (INDIA) LIMITED
24.	MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED
25.	NEW HABITAT HOUSING FINANCE AND DEVELOPMENT LIMITED
26.	NORTH EAST REGION HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED
27.	ORANGE CITY HOUSING FINANCE LIMITED
28.	PANTHOIBI HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED
29.	RAAS HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED
30.	RELIANCE HOME FINANCE LIMITED
31.	SARAL HOME FINANCE LIMITED
32.	SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED
33.	SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
34.	SRG HOUSING FINANCE LIMITED
35.	SWAGAT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED
36.	SWARNA PRAGATI HOUSING MICROFINANCE PRIVATE LIMITED

37.	TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
38.	USB HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED
39.	VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED
40.	VIVA HOME FINANCE LIMITED
41.	SEWA GRIH RIN LIMITED

[F. No. 6/1/2015- Recovery]
MOHD. MUSTAFA, Jt. Secy.